

Psa

Chapter 135

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

יְהוָה: עֲבָדָיו הִלְלוּ יְהוָה שֵׁם אֶת־ הִלְלוּ יְהוָה הִלְלוּ
यहोवा-के दासों हल्लेलूयाह यहोवा-के नाम को हल्लेलूयाह याह हल्लेलूयाह 1
[H3068](#) [H5650](#) [H3068](#) [H8034](#) [H0853](#) [H3050](#)

यहोवा की प्रशंसा करो। यहोवा के सेवकों यहोवा के नाम का गुणगान करो।

אֱלֹהֵינוּ: בֵּית בְּחַצְרוֹת יְהוָה בְּבֵית שְׁעָמֻדִים
हमारे-एलोहीम-के भवन आँगनों-में यहोवा-के भवन-में जो-खड़े-रहते-हैं 2
[H0430](#) [H3068](#) [H5975](#)

तुम लोग यहोवा के मन्दिर में खड़े हो। उसके नाम की प्रशंसा करो। तुम लोग मन्दिर के आँगन में खड़े हो। उसके नाम के गुण गाओ।

נְעִים: כִּי לְשֵׁמוֹ יִמְרוּ יְהוָה טוֹב כִּי־ יְהוָה הִלְלוּ־
आनददायक क्योंकि उसके-नाम-की गाओ यहोवा अच्छा-है क्योंकि याह हल्लेलूयाह 3
[H8034](#) [H2167](#) [H3068](#) [H3050](#)

यहोवा की प्रशंसा करो क्योंकि वह खरा है। उसके नाम के गुण गाओ क्योंकि वह मधुर है।

לְסִגְלוֹתֵינוּ: יְשָׁרָאֵל יְהוָה לֹא בָחַר יַעֲקֹב כִּי־
अपनी-निजी-संपत्ति-के-लिए इस्राएल-को याहने अपने-लिए चुना-है याकूब-को क्योंकि 4
[H5459](#) [H3478](#) [H3050](#) [H0977](#) [H3290](#)

यहोवा ने याकूब को चुना था। इस्राएल परमेश्वर का है।

אֱלֹהִים: מְכֹל־ נְאֻחֵינוּ יְהוָה גָּדוֹל כִּי־ יִדְעֵנִי אֲנִי כִי
एलोहीम सब-से और-हमारा-आदोनाई यहोवा महान-है कि जानता-हूँ मैं क्योंकि 5
[H0430](#) [H3605](#) [H0136](#) [H3068](#) [H3045](#) [H0589](#)

मैं जानता हूँ, यहोवा महान है। अन्य भी देवों से हमारा स्वामी महान है।

תְּהוֹמוֹת: וְכֹל־ בְּיַמִּים וּבְאָרְץ בְּשָׁמַיִם עָשָׂה יְהוָה חָפֵץ אֲשֶׁר־ כָּל־
गहराइयों और-सब समुद्रों-में और-पृथ्वी-पर आकाशों-में किया यहोवाने चाहा जो सब 6
[H8415](#) [H3605](#) [H3220](#) [H0776](#) [H8064](#) [H3068](#) [H3605](#)

यहोवा जो कुछ वह चाहता है स्वर्ग में, और धरती पर, समुद्र में अथवा गहरे महासागरों में, करता है।

רוּחַ מוֹצֵא־ עָשָׂה לְמַטָּר בְּרָקִים הָאָרֶץ מְקַצֵּה נִשְׂאִים מַעֲלָה
वायु-को निकालनेवाला बनाया वर्षा-के-लिए बिजलियों-को पृथ्वी-के छोरों-से बादलों-को उठानेवाला 7
[H7307](#) [H3318](#) [H4306](#) [H0776](#) [H5927](#)

מְאֻצְרוֹתָיו:
अपने-खजानों-से
[H0214](#)

परमेश्वर धरती पर सब कहीं मेघों को रचता है। परमेश्वर बिजली और वर्षा को रचता है। परमेश्वर हवा को रचता है।

בְּהֶמָה: עֵד־ מְאֻרָם מִצְרָיִם בְּכוֹרֵי שְׂהָדָה
पशु पशु-तक आदमी-से मिस्र-के पहलौठों-को जिसने-मारा 8
[H0929](#) [H5704](#) [H0120](#) [H4714](#) [H1060](#) [H5221](#)

परमेश्वर मिस्र में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठों को नष्ट किया था।

9
 אֲתוֹת וּמִפְתִּים בְּתוֹכָי וּמִצְרִים כְּפָרְעָה וּבְכָל- עֲבָרָיו :
 और-सब फिरौन-पर मिस्र तेरे-बीच-में और-अद्भुत-कार्य चिह्न भेजा
 H5650 H3605 H6547 H4714 H8432 H4159 H0226 H7971

परमेश्वर ने मिस्र में बहुत से अद्भुत और अचरज भरे काम किये थे। उसने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाये।

10
 שָׁהָה גוֹיִם רַבִּים וְהָרַג מְלָכִים עֲצוּמִים :
 जिसने-मारा जातियों बहुतों-को मारा और-मारा राजाओं शक्तिशाली-को
 H5221 H2026 H4428 H6099

परमेश्वर ने बहुत से देशों को हराया। परमेश्वर ने बलशाली राजा मारे।

11
 לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי וְלְעֹג מֶלֶךְ בַּשָּׁן הַבְּשֹׁן אֶלְכָל מַמְלָכוֹת כְּנָעַן :
 सीहोन-को एमोरी-के राजा और-ओग-को राजा बाशान-के राजा और-सब-को राज्यो कनान-के
 H5511 H4428 H0567 H5747 H4428 H1316 H3605 H4467

उसने एमोरियों के राजा सीहोन को पराजित किया। परमेश्वर ने बाशान के राजा ओग को हराया। परमेश्वर ने कनान की सारी प्रजा को हराया।

12
 וָתַן אֶרְצָם וְנָחָה וְנָחָה לְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ :
 और-दिया उनकी-भूमि-को उनका-रूप-में विरासत-के-रूप-में इस्राएल-को अपनी-प्रजा
 H5414 H0776 H5159 H5159 H3478

परमेश्वर ने उनकी धरती इस्राएल को दे दी। परमेश्वर ने अपने भक्तों को धरती दी।

13
 יְהוָה שָׁמַן לְעוֹלָם יְהוָה זָכָרָה לְדָר-וָדָר :
 यहोवा तेरा-नाम यहोवा सदा-के-लिए यहोवा तेरी-स्मृति पीढ़ी पीढ़ी-दर-पीढ़ी-के-लिए
 H3068 H8034 H5769 H3068 H2143 H1755 H1755

हे यहोवा, तू सदा के लिये प्रसिद्ध होगा। हे यहोवा, लोग तुझे सदा सर्वदा याद करते रहेंगे।

14
 כִּי- יָדִין יְהוָה וְיָתֵן-כֶּסֶף עַמּוֹ וְעַל- עֲבָרָיו יִתְּנָם :
 क्योंकि न्याय-करेगा यहोवा अपनी-प्रजा-का वह-दया-करेगा अपने-दासों-पर और
 H3068 H1777 H5162 H5650

यहोवा ने राष्ट्रों को दण्ड दिया किन्तु यहोवा अपने निज सेवकों पर दयालु रहा।

15
 עֲצָבִי מַעֲשֵׂה וְזָהָב יָדִי אָדָם :
 मूर्तियाँ कारीगरी और-सोना हाथों आदमी-की
 H6091 H2091 H4639 H3027 H0120

दूसरे लोगों के देवता बस सोना और चाँदी के देवता थे। उनके देवता मात्र लोगों द्वारा बनाये पुतले थे।

16
 פֶּה- לָהֶם וְלֹא יִדְבְּרוּ עֵינִים לָהֶם וְלֹא יִרְאוּ :
 मुँह उनका और-नहीं वे-बोलती वे-देखती वे-नहीं
 H6310 H1992 H3808 H1696 H1992 H3808 H7200 H3808 H1992

पुतलों के मुँह हैं, पर बोल नहीं सकते। पुतलों की आँखें हैं, पर देख नहीं सकते।

17
 אָזְנוֹם לָהֶם וְלֹא יִשְׁמְעוּ אֵין- יֵשׁ- רֹחַ כְּפִיהֶם :
 कान उनके और-नहीं वे-सुनते भी नहीं-है कोई प्राण उनके-मुँह-में
 H0241 H1992 H3808 H0238 H0637 H0369 H3426 H7307 H6310

पुतलों के कान हैं, पर उन्हें सुनाई नहीं देता। पुतलों की नाकें हैं, पर वे सूँघ नहीं सकते।

18
 כְּמוֹהֶם יִהְיוּ עֲשִׂיהֶם כָּל- אֲשֶׁר- בָּטַח בָּהֶם :
 उनकी-तरह होंगे उनके-बनानेवाले सब जो भरोसा-करते-हैं उन-में
 H3644 H1961 H3605 H0982

वे लोग जिन्होंने इन पुतलों को बनाया, उन पुतलों के समान हो जायेंगे। क्यों क्योंकि वे लोग मानते हैं कि वे पुतले उनकी रक्षा करेंगे।

19
בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּרַכּוּ אֶת־יְהוָה בֵּית אֶת־יְהוָה
घराना इस्राएल-का स्तुति-करी को यहोवा
घराना इस्राएल-का स्तुति-करी को यहोवा
H3068 H0853 H1288 H0175 H3068 H0853 H1288 H3478

इस्राएल की संतानों, यहोवा को धन्य कहो! हारून की संतानों, यहोवा को धन्य कहो!

20
בֵּית לְוִי בְרַכּוּ אֶת־יְהוָה יְרֵאָה יְהוָה יְהוָה
घराना लेवी-का स्तुति-करी को यहोवा डरनेवालों यहोवा
घराना लेवी-का स्तुति-करी को यहोवा
H3068 H0853 H1288 H3068 H3373 H3068 H0853 H1288 H3878

लेवी की संतानों, यहोवा को धन्य कहो! यहोवा के अनुयायियों, यहोवा को धन्य कहो!

21
בְּרֹךְ יְהוָה מִצִּיּוֹן שֹׁכֵן יְרוּשָׁלַם הַלְלוּ-יָהּ
धन्य यहोवा सिंघोन-से निवासी यरूशलेम-में याह हल्लेलूयाह
धन्य यहोवा सिंघोन-से निवासी यरूशलेम-में याह
H3050 H3389 H7931 H6726 H3068 H1288

सिंघोन का यहोवा धन्य है। यरूशलेम में जिसका घर है। यहोवा का गुणगान करो।